



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section. 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1977/श्रवण 31, 1899

No. 155] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1977/SRAVANA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd August 1977

SUBJECT :—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1977—March, 1978 (Amendment).

No. 63-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book—Volume II) for the period April 1977—March 1978 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/77 dated the 27th April, 1977.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Policy Book (Vol. II)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6	Section I Part-B, Para 10	The following may be added after the existing clause (j) :— “(k) Exports to Bangladesh against IBRD/IDA/Asian Development Bank Loans or

(1)	(2)	(3)	(4)
			against German Commodity Loans to Bangladesh, provided the supplies are made under the procedure of international competitive bidding and paid for in free foreign exchange or in accordance with the payment procedures for procurement under IBRD, IDA, Asian Development Bank and German Commodity Loan Regulations".
2.	26	Section I, Part B, Annexure I, Part I, Sl No 3	The existing description may be amended to read as under:— "All hot rolled sections, bars, rems, wire rods (other than bright bars, cold drawn/machined/ground/turned/peeled), all wires and all cold rolled sheets/p'les/trips (not mentioned in Appendix 41 Schedules 'A' to 'D' of the ITC Policy, Volume I)".
3.	29	Section I, Part B, Annexure I, Sl No 10, Col 4	The figure of "Rs 20 lakhs" appearing in Remark (2), as inserted by the Ministry of Commerce Public Notice No. 58-ITC(PN)/77 dated 6-8-1977, will be amended to read as "Rs 50 lakhs".

K. V SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports.

## वाणिज्य मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचना

## आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1977

विषय :—अप्रैल 1977—मार्च 1978 वर्ष अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (सशोधन) ।

सं० 63-आईटीसी (पीएन) '77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21-आईटीसी (पीएन) 77 दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1977—मार्च 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (नीति पु०वा० 2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. निम्नलिखित सशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

अनुसं० नीति पुस्तक (वा० 2)

की पृष्ठ सं०

संदर्भ

सशोधन

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6	खंड 1, भाग 'बी', पैरा 1.0	वर्तमान अनुच्छेद 'जे' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :— "के आईबीआरडी आई० डी० ए०/एशियाई विकास बैंक ऋण या बंगलादेश के लिए

(1)

(2)

(3)

(4)

जर्मन पण्यवस्तु ऋण के मद्दे बंगला देश को निर्यात, वशर्ते कि आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रति-योगी बोली क्रियाविधि के अधीन हो और भुगतान स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में या आई बीआरडी/आईडीए, एशियाई विकास बैंक और जर्मन पण्यवस्तु-ऋण विनियमों के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए भुगतान प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो” ।

2. 26

खंड 1, भाग बी,  
अनुबन्ध 1, भाग 1,  
क्रम सं० 3

वर्तमान विवरण को संशोधन कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:—

“सभी हाट रोल्ड सेक्शन, छड़े सैमिस, वायर राइ (ब्राइट बांस, कोल्ड ड्रान, मशीन्ड, प्राउन्ड, टर्न्ड, पील्ड से भिन्न) सभी तार और सभी कोल्ड रोल्ड शीट्स प्लेट्स स्ट्रिप्स । (जो आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक वा 1 के परिशिष्ट 41 अनुसूची ‘ए’ से ‘डी’ तक में उल्लिखित नहीं है)” ।

3. 29

खंड 1, भाग बी,  
अनुबन्ध 1, क्रम सं० 10,  
कालम 4

टिप्पणी (2) में आने वाले “20 लाख रुपए” के आकड़े को, जिसे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 58-आईटीसी (पीएन) 77 दिनांक 6-8-77 में शामिल किया गया था, इसे संशोधित कर “5.0 लाख रुपए पढ़ा जाए” ।

का० वे० शेषाद्रि,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

